

प्रेस नोट दिनांक 26.09.2021

थाना खेसरहा पुलिस द्वारा योगाभ्यास व थाना परिसर की साफ सफाई किया गया ।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री अरुण चन्द क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 26.09.2021 दिन रविवार को थाना हाजा के अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ योगाभ्यास किया गया तथा थाना हाजा के अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ थाना परिसर में वृक्षारोपण हुये पौधो का देखरेख किया गया तदोपरान्त सभी अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा मिलकर थाना परिसर की साफ सफाई किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक महोदय श्री रवीन्द्र कुमार सिंह द्वारा अधि०/कर्मचारीगण को योगाभ्यास व थाना परिसर साफ सफाई हेतु प्रेरित किया गया ।

प्रेस नोट- दिनांक 26.09.2021

सराहनीय कार्य , नवविवाहित जोड़े में व्याप्त परिवारिक विवाद व एक अन्य विवाद को पुलिस द्वारा समझा बुझाकर हल कराया गया ।

01 आज दिनांक 26.09.2021 थाना भवानीगंज अन्तर्गत ग्राम धौरहरा उर्फ धर्मपुर टोला शेखडीह के निवासी सद्दाम पुत्र मो० उमर मरहूम के शिकायती प्रार्थना पत्र खुद के पत्नी सिराजुन्निशा पुत्री शेर मोहम्मद के बावत परिवारिक झगड़े को लेकर उपस्थित थाना हाजा आये । प्रार्थना पत्र के निवारण के क्रम में दोनो पति पत्नी को पुलिस भवानीगंज द्वारा समझा बुझाकर व्याप्त परिवारिक झगड़े को हल कराया गया । दोनो पक्ष एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने को राजी हुए तथा दोनो नव विवाहित जोड़े को मिठाई खिलाकर उनके परिवारिजन के साथ थाना हाजा से रुकसत किया गया । विधित हो कि उक्त जोड़े का विवाह पीछले 27 आगस्त को हुआ था । मात्र 28 दिन शादी के बन्धन में बन्धे, उक्त जोड़े में व्याप्त परिवारिक विवाद को पुलिस द्वारा हल कराकर विवाह विच्छेद होने से बचाया गया । दोनो परिवार के लोगो ने पुलिस का हार्दिक आभार प्रकट किया ।

02 थाना भवानीगंज अन्तर्गत ग्राम बढनीचाफा टोला गुट्टवा की निवासिनी देवी पत्नी भुल्लन के शिकायती प्रार्थना पत्र खुद के पति भुल्लन के बावत परिवारिक झगड़े को लेकर उपस्थित थाना हाजा आयी । प्रार्थना पत्र के निवारण के क्रम में दोनो पति पत्नी को पुलिस भवानीगंज द्वारा समझौता कराया गया । दोनो पक्ष एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने को राजी हुए तथा पति - पत्नी एक – दूसरे को मिष्ठान खिलाकर विवाद को खत्म किये । पुलिस द्वारा आवश्यक हिदायत किया गया । दोनो परिवार के लोगो ने पुलिस का आभार प्रकट किया ।